

राज्यपाल ने स्टाम्प एवं निबंधन अधिकारी संघ के अधिवेशन का उद्घाटन किया

लखनऊ: 12 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज गन्ना संस्थान में स्टाम्प एवं निबंधन अधिकारी संघ के अधिवेशन-2018 का दीप प्रज्ज्वलित करके उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वामी विवेकानन्द के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी आदरांजलि व्यक्त की। अधिवेशन में विभागीय मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता 'नंदी' सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। संघ के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया।

राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि स्टाम्प एवं निबंधन विभाग जनता से जुड़ा विभाग है जो महत्वपूर्ण कार्य करता है। विभाग के अधिकारी जो भी दायित्व स्वीकार करें उसे प्रमाणिकता से करने की दृष्टि बनायें। राजस्व बढ़ाना सरकार के लिये जरूरी है। निबंधन चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें केवल राजस्व बढ़ाना ही नहीं बल्कि फर्जी दस्तावेज को रोकना भी जिम्मेदारी है। विभाग के लिये फर्जी रजिस्ट्री एक चुनौती है। हर जगह 'ब्लैक शीप' होते हैं जिन्हें रोकना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सफलता प्राप्त के लिये लक्ष्य निर्धारित करें, पर लक्ष्य बनाने से पूर्व विचार-विनिमय जरूरी है। उन्होंने कहा कि आम जनता से सीधे जुड़ाव के कारण स्टाम्प एवं निबंधन विभाग अत्यंत संवेदनशील विभाग है।

श्री नाईक ने कहा कि जो भी काम करें उसे और अधिक अच्छा करने का प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि मैंने राज्य के प्रतीक चिन्ह के अनधिकृत उपयोग का मामला उठाया और विधान सभा अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट किया। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव एवं वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखकर कहा कि हर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। वर्तमान मुख्यमंत्री ने बात को स्वीकार किया। जवाहर बाग घटना के पीछे भी सरकारी जमीन के अतिक्रमण का मामला था। उस पर भी मैंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कहा था। 'यह काम मेरा नहीं है पर मैं करता रहता हूँ, आप भी देखें और ऐसे काम में पहल करें।' उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने पर पद एवं विभाग की ख्याति बढ़ती है।

मंत्री श्री नंदगोपाल 'नंदी' ने कहा कि स्टाम्प एवं निबंधन विभाग प्रदेश का तीसरा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग है। इस वर्ष रुपये 17,400 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2017 तक रुपये 9,000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा चुका है तथा माह मार्च तक लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

अधिवेशन में स्टाम्प एवं निबंधन अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री ओ०पी० सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

-----

